



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 15.01.2023

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना खरेला पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 15.01.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में अवैध शस्त्र धारकों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष खरेला श्री गणेश कुमार द्वारा टीम गठित कर उ0नि0 शिवकुमार यादव द्वारा 01 नफर अभियुक्त प्रमोद कुमार अहिरवार पुत्र श्रीराम उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम कन्धौली थाना मुस्कुरा जनपद हमीरपुर के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे ओवरब्रिज परथनिया से गिरफ्तार किया गया तथा मौके से अभियुक्त के पास से 01 अदद मोटर साइकिल नं0 UP95V1623 प्लेटिना रंग काला /हरा बरामद हुई जिसके कागजात न दिखा पाने के कारण मोटर साइकिल उपरोक्त को मु0सि0सि0नं0 01/2023 में अन्तर्गत धारा 207 MV ACT में सीज किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 06/2023 अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 शिवकुमार यादव
2. का0 चन्दन सिंह
3. कां0 महेश प्रसाद

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. प्रमोद कुमार अहिरवार पुत्र श्रीराम उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम कन्धौली थाना मुस्कुरा जनपद हमीरपुर





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 15.01.2023

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना खरेला पुलिस टीम ने अवैध मिश्रित तम्बाकू सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से भारी मात्रा में तम्बाकू बनाने की सामग्री व 01 चार पहिया वाहन पिकप बरामद -

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 15.01.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में अवैध मिश्रित तम्बाकू की तस्करी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष खरेला श्री गणेश कुमार द्वारा गठित टीम उ0नि0 दिनेश कुमार यादव व उ0नि0 अजीत नारायण त्रिपाठी द्वारा 01 नफर अभियुक्त धर्मेन्द्र राजपूत पुत्र मूलचन्द्र राजपूत उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम गहरौली थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर को मय 01 अदद पिकप न0 UP91T2623 मे लदे प्लास्टिक के 09 बोरी मे अर्धनिर्मित मिश्रित तम्बाकू / गुटखा जिसमे 06 बोरी मे अर्धनिर्मित तम्बाकू/गुटखा कुल वजन 02 क्विन्टल 63 किलो 600 ग्राम व एक बोरी मे कटी लौंग कुल वजन 60 किलो 300 ग्राम व 02 बोरी मे रैपर व रैपर रोल जिसमे शुभम नांमाकित है कुल वजन 92 किलो के साथ बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे हाइवे पुल के नीचे ग्राम बराय के पास से गिरफ्तार किया गया तथा मौके से अभियुक्त के पास से पिकप न0 UP91T2623 रंग सफेद के कागजात न दिखा पाने के कारण पिकप उपरोक्त को मु0सि0सि0नं0 02/2023 में अन्तर्गत धारा 207 MV ACT में सीज किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 07/2023 अन्तर्गत धारा 420 भादवि व 59 खाद्य सुरक्षा और मानक अधि0 2006 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मान0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 दिनेश कुमार यादव
- 2.उ0नि0 अजीतनारायण त्रिपाठी
- 3.कां0 मनीष कुमार
- 4.कां0 अनिल कुमार
- 5.कां0 राहुल यादव
- 6.कां0 चन्द्रकुमार भारती

गिरफ्तार अभियुक्त-

धर्मेन्द्र राजपूत पुत्र मूलचन्द्र राजपूत उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम गहरौली थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 15.01.2023

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक एकादश ने प्रेस क्लब महोबा एकादश को इकतरफा मुकाबले में 04 विकेट से दी शिकस्त...।

आज दिनांक 15.01.2023 को पुलिस अधीक्षक एकादश व प्रेस क्लब महोबा एकादश के मध्य सद्भावना चैम्पियन्स ट्राफी 2023 क्रिकेट मैच जनपद महोबा के राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम महोबा में खेला गया, 20 ओवर के इस मैच में पुलिस अधीक्षक एकादश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया जिसमें पुलिस अधीक्षक एकादश ने अपनी घातक गेंदबाजी से प्रेस क्लब महोबा को निर्धारित 20 ओवरों में मात्र 103 रन में समेट दिया, इसके जवाब में खेलने उतरी पुलिस अधीक्षक एकादश की टीम ने अपनी दमदार बैटिंग से मैच को इकतरफा मुकाबला बनाते हुये 17.4 ओवर में ही 04 विकेट से जीत दर्ज कर ली।

पुलिस अधीक्षक एकादश की तरफ से खेलने वाले कांस्टेबल सहदेश कुमार ने आलराउण्डर प्रदर्शन करते हुये गेंदबाजी से 02 विकेट लिये व बैट से कमाल करते हुये नाबाद 45 रन बनाये जिससे उनको मैच के पुरस्कार से नवाजा गया।

सद्भावना चैम्पियन ट्राफी के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी महोबा श्री मनोज कुमार व पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह ने पूरे मैच के दौरान उपस्थित रहकर खिलाड़ियों की हौसलाआफजाई की।

मैच के दौरान जनपदीय पुलिस व प्रशासन के समस्त उच्चाधिकारीगण व जनपदीय प्रेस क्लब महोबा के सम्मानित साथीगण भी मौजूद रहें जिनके द्वारा प्रत्येक विकेट व बाउण्ड्री में नगद पुरस्कार संबंधित खिलाड़ियों को प्रदान किया गया।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 15.01.2023

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



महोबा पुलिस